

## भारतीय सेना ने दिया पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब

By : Editor Published On : 20 Aug, 2019 02:22 PM IST



जम्मू: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से बौखलाया पाकिस्तान अब सीमा पर सीजफायर उल्लंघन कर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है. खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने एलओसी से सटे इलाकों में एक बार फिर फायरिंग की है. ताजा जानकारी के मुताबिक राजौरी जिले में एलओसी से सटे केरी सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की है. इस सेक्टर में पाकिस्तान बीती रात से रुक रुककर फायरिंग कर रहा है. एहतियात के तौर पर केरी सेक्टर में बॉर्डर के आसपास के 3 से 4 प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया है. भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है.

बता दें कि गड़बड़ी फैलाने की फिराक में लगा पाकिस्तान जब आतंकी गतिविधियों में नाकाम हुआ तो अब उसने सेना के जरिए भारतीय सीमा के रिहायशी इलाकों निशाना बनाने पर उतर आया है.

बता दें कि बौखलाए पाकिस्तान ने 17 अगस्त को राजौरी के नौशेरा सेक्टर और मेंढर के कृष्णा घाटी सेक्टर में भी सीजफायर का उल्लंघन किया था. पाकिस्तानी सेना की ओर से दोनों ही सेक्टर में मोर्टार दागे गए थे. इसमें नौशेरा सेक्टर में लांस नायक संदीप थापा शहीद हुए थे.

भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह कर दीं थी. साथ ही भारतीय सेना की इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैनिकों के ढेर होने की खबर है. सेना के सूत्रों के अनुसार, शनिवार सुबह 6:30 बजे नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से अकारण गोलीबारी की गई. पाकिस्तान ने छोटे हथियारों से लेकर मोर्टार तक दागे थे. एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने कहा, "बिना उकसावे की कार्रवाई का हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं."

संघर्षविराम उल्लंघन के दौरान घायल हुए देहरादून निवासी 35 वर्षीय जवान लांस नायक संदीप थापा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. सूत्रों के अनुसार, थापा भारतीय सेना में पिछले 15 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे थे. इस साल पाकिस्तान की ओर से संघर्षविराम उल्लंघन के चलते सात जवान शहीद हुए हैं. पाकिस्तान ने दो दिन पहले ही एलओसी पर अपने पांच सैनिक के मारे जाने की बात कबूली थी.PLC.

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/भारतीय-सेना-ने-दिया-पाकिस/>

12th year of news and views excellency

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.

---

[www.internationalnewsandviews.com](http://www.internationalnewsandviews.com)